

एमईएसएच उचित व्यापार तथ्य पत्र:



विश्व उचित व्यापार संगठन (डबल्यूएफ़टीओ):

डबल्यूएफ़टीओ का लक्ष्य गरीब/हाशिये पर खड़े उत्पादकों और श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना है

- यह उचित व्यापार आपूर्ति श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का वैश्विक नेटवर्क है
- डबल्यूएफ़टीओ 5 क्षेत्रों में 70 से अधिक देशों में कार्य कर रहा है
- यह अंतर्राष्ट्रीय गारंटी प्रणाली के माध्यम से साख और पहचान प्रदान करता है (जीएस)

उचित व्यापार को परिभाषित करना:

‘उचित व्यापार बदलाव के लिए एक आंदोलन है जो हाशिये पर खड़े/गरीब उत्पादकों के उत्थान के लिए है’।

उचित व्यापार आपूर्ति श्रृंखला:

उत्पादक/
सहकारी समिति



उचित व्यापार
वितरक



स्टोर



ग्राहक



परंपरागत आपूर्ति श्रृंखला:

उत्पादक



निर्यातक



बिचौलिया खरीददार



बहु राष्ट्रीय निगम/कॉर्पोरेशन



दलाल



स्टोर



वितरक



ग्राहक

उचित व्यापार आपूर्ति श्रृंखला उत्पादकों को उनके व्यापारिक साझेदारों के साथ दीर्घ कालिक सम्बन्धों को विकसित करने और उनके उत्पादों के लिए उंची कीमत कमाने की अनुमति देता है।

उचित व्यापार के सिद्धान्त:

1. आर्थिक रूप से वंचित उत्पादकों के लिए अवसर पैदा करना
2. पारदर्शिता और जवाबदेही
3. उचित व्यापार की प्रथाएँ
4. उचित मूल्य का भगतान
5. सुनिश्चित करना कि कोई बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी ना हो
6. गैर भेदभाव,लिंग समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व संघ बनाने की स्वतन्त्रता के प्रति प्रतिबद्धता
7. काम करने के दौरान अच्छी स्थितियों को सुनिश्चित करना
8. क्षमता निर्माण प्रदान करना
9. उचित व्यापार को बढ़ावा देना
10. पर्यावरण के लिए सम्मान

डबल्यूएफ़टीओ गारंटी प्रणाली:

2011 में, विश्व उचित व्यापार संगठन (डबल्यूएफ़टीओ) ने अपने सदस्यों के लिए डबल्यूएफ़टीओ गारंटी प्रणाली (जीएस) शुरू की थी जिसके तहत संगठन को भविष्य में अपनी सदस्यता जारी रखने के लिए डबल्यूएफ़टीओ के सिद्धांतों का पालन करना होगा। यह सत्यापित करने के लिए कि हम इन सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं, डबल्यूएफ़टीओ द्वारा एमईएसएच का ऑडिट या लेखा परीक्षण किया जाएगा।

- गारंटी प्रणाली (जीएस) कोई उत्पाद प्रमाणीकरण प्रणाली नहीं है।
- यह एक आश्वासन तंत्र है कि आपूर्ति श्रृंखला व संगठन कि प्रथाओं में उचित व्यापार लागू किया गया है।
- सदस्य जो गारंटी प्रणाली की प्रक्रिया को पास कर लेते हैं “गारंटीशुदा उचित व्यापार संगठन” का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वे अपने उत्पादों पर डबल्यूएफ़टीओ के लेबल का उपयोग कर सकते हैं।



संदर्भ:

- ग्रीन अमेरिका की उचित व्यापार गाइड - <http://www.greenamerica.org/PDF/GuideFairTrade.pdf>
- डबल्यूएफ़टीओ की गारंटी प्रणाली - <http://wfto.com/standard-and-guarantee-system/guarantee-system>